

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1103/2012/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अर्थ टायर्स, ए-89, ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर. ....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1105/2012/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अलवर. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स असरू टायर्स, ए-370, ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा, .....अपीलार्थी की ओर से.

उप-राजकीय अभिभाषक

कोई नहीं

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/10/2015

### निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 30 व 249/आरवेट/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 13.12.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये पारित किये गये आदेश क्रमशः दिनांक 07.02.2011 व 28.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों में ट्रेड डिस्काउण्ट्स (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम

लगातार.....2

की धारा 23, 24 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में उक्त ट्रेड डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से रिवर्स कर, तदनुसार ब्याज एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि	रिवर्स कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	5
1103 / 12	07.02.2011	4,30,163	53,770	15,056	1,07,540
1105 / 12	28.01.2011	4,92,399	61,550	17,234	1,23,100

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2011 से स्वीकार की जाकर, रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति को किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं।

5. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक श्री माणकचन्द गुप्ता की लिखित बहस पत्रावलियों पर उपलब्ध है, जिनका अवलोकन किया गया।

6. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेताओं द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि प्रत्यर्थीगण के विक्रय मूल्य का भाग होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारीगण की विक्रय राशि पर करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थीगण ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रत्यर्थीगण को उसके विक्रेता व्यवहारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए पर इस पर करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थीगण को दिया गया ट्रेड डिस्काउण्ट वेट अधिनियम की धारा 2(36) के

लगातार ..... 3

प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकता। अतएव विक्रेता द्वारा वेट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण को विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर कर आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में उक्त कथन के साथ राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

8. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस एवं विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण की लिखित बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारीगण ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर आरोपित किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में ‘विक्रय मूल्य’ को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :—

(36) “**sale price**” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**Explanation II.** – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

10. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वॉयस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थीगण के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थीगण की अपीलें स्वीकार कर आरोपित कर अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

11. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्तों (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—‘बी’ उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—‘सी’ जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चमल इलेक्ट्रोनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम—1 पार्ट—1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत जालोर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014) 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत—ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।
12. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
13. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी  
10.10.2015  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य